



## प्रेस नोट थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर नगर के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर दक्षिण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी गोविन्द नगर के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोविन्दनगर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम वांछित अपराधी व अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड के क्रम में दिनांक 31.01.2021 को फैक्ट्री एरिया क्षेत्र से कुछ ठगी करने वाले शातिर पकडे गये है जो Amazon कम्पनी के आनलाइन मंगाये जाने वाले सामान को बदलकर नकली सामान जैसे मोबाइल की जगह साबुन की बट्टी पंखा की जगह पुराना पंखा या बिजली का बोर्ड डिलीवर कर उक्त नकली सामान को कम्पनी को वापस कराकर खाते में रूपये रिफण्ड करा लेते थे तथा जो असली सामान कम्पनी भेजती थी उसे भी बाजार में बेच देते थे इस गैंग में जीएनआरएल कम्पनी के तीन डिलेवरी ब्याय एक अमेजोन कम्पनी का स्टेशन सपोर्ट एसोसिएट तथा एक एसआरसीबी कम्पनी का सुपरवाइजर जो फ्रेश माल को अपने साठ गाँठ वाले डिलेवरी ब्याय को देकर फर्जी नाम पते पर डिलेवर कराता था जो कि किसी इनके जान पहचाने वाले होते थे तथा ये फर्जी नाम पते वाले लोग एक दो दिन बाद पिकअप अर्थात माल वापस करने की कम्पलेन्ट कर देते थे तथा कम्पनी एसी शिकायत पर तत्काल ही पैसा रिफण्ड कर देती थी जबकि पिकअप वाले की जिम्मेदारी है कि सामान वापसी के समय सामान की जाँच कर वापस लेगा कि यह वही सामान है जो डिलेवर किया गया था परन्तु इन लोगो द्वारा कम्पनी के ही कुछ अन्य वरिष्ठ कर्मियों से साँठ गाँठ कर खराब माल को ही लेकर कम्पनी में वापस कर देते थे इस कार्य में इनको बाजार में विके हुये माल का 10 प्रतिशत मिलता था इनके द्वारा भारी मात्रा में आईफोन व अन्य महँगे मोबाइल तथा जूसर मिक्सर पंखे गीजर बिजली के तार घडियाँ इत्यादि महँगे सामान मंगाकर तथा पिकअप के समय पुराना कबाड सामान रखकर कम्पनी को धोखाधडी व आपस में मिली भगत करके वापस करके कम्पनी को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है जो कि करीब 03 करोड़ रुपये की है इसी तरह की ठगी कर कम्पनी को नुकसान पहुँचा कर अबैध धन अर्जित करते थे जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 046/2021 धारा 420 भादवि पंजीकृत है इस कार्य में कम्पनी के लोग सलिस है जिसकी विवेचना के क्रम में अभियुक्तगणों की गिरफ्तार कर विधिक आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

## नाम पता अभियुक्तगण –

1. उदय कुमार पुत्र विनोद कुमार (उम्र-29 वर्ष) नि0 सी/708 विश्वबैक कालोनी बर्गा थाना बर्गा कानपुर नगर ।  
(डिलेवरी एसोसियेट जीएनआरएल वेन्डर(अमेजोन द्वारा आउटसोर्स किये गये))



2. अमित पटेल पुत्र चन्द्रपाल (उम्र-28 वर्ष) नि0 आराजी सं0 27 दीनदयाल पुरम गल्ला मण्डी थाना नौबस्ता कानपुर नगर ।(डिलेवरी एसोसियेट जीएनआरएल वेन्डर(अमेजोन द्वारा आउटसोर्स किये गये))



3. प्रदीप सिंह पुत्र मुन्नू सिंह (उम्र-25 वर्ष) नि0 ईडब्लूएस बी-489,490 बर्गा 7 जनता नगर थाना बर्गा कानपुर नगर ।(डिलेवरी एसोसियेट जीएनआरएल वेन्डर(अमेजोन द्वारा आउटसोर्स किये गये))



4. जितेन्द्र सिंह पुत्र अंगद सिंह (उम्र-26 वर्ष) नि0 16/114 सिविल लाइन थाना कोतवाली कानपुर नगर ।( अमेजोन कम्पनी मे स्टेशन सपोर्ट एसोसिएट)



5. विकास कुमार पुत्र श्री जगत नारायण (उम्र-22 वर्ष) नि0 187 महादेव नगर कच्ची बस्ती रतनलाल नगर थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर ।(एसआरसीबी वेन्डर (अमेजोन द्वारा आउटसोर्स किये गये))



### आपराधिक इतिहास –

1. मु.अ.सं.046/2021 धारा 420 भादवि थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्र0नि0 श्री अनुराग मिश्र थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर ।
2. उ0नि0 श्री राम सिंह चौकी प्रभारी फैक्ट्री एरिया थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर ।
3. हे0का0 पवन कुमार स्वाट टीम एसपी दक्षिण कानपुर नगर ।
4. का0 जितेन्द्र कुमार गर्ग स्वाट टीम एसपी दक्षिण कानपुर नगर ।
5. का0 देवांश सिरोही स्वाट टीम एसपी दक्षिण कानपुर नगर ।
6. का0 नवीन कुमार स्वाट टीम एसपी दक्षिण कानपुर नगर ।
7. का0 दिलीप कुमार स्वाट टीम एसपी दक्षिण कानपुर नगर ।